



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 1026 राँची, गुरुवार, 8 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

6 नवम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-133/2017-2707 (HRMS)-- श्री प्रवीण रोहित कुजूर, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह को अनधिकृत रूप से अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहने, आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-9792, दिनांक 13 सितम्बर, 2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया।

2. पुनः विभागीय आदेश सं०-11522, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2017 के पूर्वाह्न से श्री कुजूर का योगदान स्वीकृत किया गया है।

3. अतः मामले की समीक्षोपरांत, श्री प्रवीण रोहित कुजूर, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

4. इनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	PRAWEEEN ROHIT KUJUR (224138)	श्री प्रवीण रोहित कुजूर, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	06/11/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
